



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 82] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1984/चैत्र 4, 1906
Nc. 82] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1984/CHAITRA 4, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate pageing is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1984

सां० का० नि० 225 (अ०)/आब०/ईख: केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और मंगलों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है और ईख की आधिकारिक न्यूनतम कीमत 13.50 रुपये किंवाटल के आधार पर जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सहबद्ध है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वसूली की वृद्धि पर 15.8824 रुपये प्रति किंवाटल का प्रीमियम है इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची में स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कटौत प्रक्रिया वाले चीनी कारखानों के म्यामियों द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 नितम्बर, 1984 को समाप्त होने वाले ईख वर्ष 1983-84 के लिए परिदत्त ईख के लिए संदेय होगी किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहने हुए किया जायेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	गन्ने का रुपये में प्रति किंवाटल न्यूनतम मूल्य
1	2	3
1	कर्नाटक एस० एस० के० लि०, हावेरी, जिला धारवाड़, कर्नाटक	13.50
2	वि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, गजगोला-हसनपुर, जिला मुरादाबाद (उ० प्र०)	15.25
3	शुभात्मा किसान सहकारी प्रोड्यूसर्स लि०, नाल्हे, जिला सांगली-416313 (महाराष्ट्र)	18.58
4	वि नन्दापनेनी बैरठराव कोआप० शुगर्स लि०, जामपानी, तनानी तालुक रायूर जिला, आन्ध्र प्रदेश	13.50
5	पोन्नी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि०, पन्नीपनयम, कावेरी आर० एस० पो० आ० हरीड-638007 (तमिलनाडु)	13.50

[सं० 3-1/83-एमपीवाई (डी II)]

एन० अमर० बनर्जी, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March 1984

G. S.R. 225(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.50 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.8824 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 1983-84, ending the 30th September, 1984, subject to the rebates payable, therefor, under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
(1)	(2)	(3)
1.	Karnataka S.S.K. Ltd., Haveri, District Dharwad, Karnataka.	13.50
2.	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Gajraula—Hasanpur, District Moradabad (U.P.)	15.25
3.	Hutatma Kisan Ahir Sahakari Sakhar Ltd., Walwe, District Sangli-416313 (Maharashtra)	18.58
4.	The Nannapaneni Venkatesh Coop. Sugars Ltd., Jampani, Tenali Tq. Guntur District, Andhra Pradesh	13.50
5.	Penni Sugars & Chemicals Ltd., Pallipalayam, Cauvery R.S. P.O. Erode-638007 (Tamil Nadu)	13.50

[No. 3-1/83-SPY (D-II)]

N.R. BANERJI, Jt. Secy. (Sugar)